

Schedule XLV-Form No. 134

AGREEMENT. 36

MBNO-1044

MMGSY/172

R.W.D.W.D Kishanganj-2 DIVISION
mmgsy (S.C)

POTHIA

SUB-DIVISION

Taiyabpur Dalua To Bagrani Mirzapur

MEASUREMENT BOOK

M/S

MB No. 1044

Agg. - Abdul Bariq

प्रमाणित किया जाता है कि : म/प पुस्त में कुल 100
(एन सी) मुद्रित संकेतों पर है जो... जितने... कुमा...
सहायक अभियंता, ग्रा.का.वि. कार्य प्रमंडल... अवर प्रमंडल... पोथिया
के नाम से निर्गत किया जाता है।

ले श्री

कार्यपालक अभियंता

ग्रा.का.वि. कार्य प्रमंडल

किसनगंज-2

8/3/20

Sch. XLV—Form No. 134

R.W.D.W.D Kishanganj DIVISION
Pothia SUB-DIVISION

Measurement Book

No. 1044

Name of Officer Sri Jitendra Kumar

A.E R.W.D

Date of first entry _____

Date of last entry _____

3rd on A/C Bill

Detail of measurement

Sch. XLV—Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
N/W - Construction of Road from Tankam Dalua to Bagasani Murgaitan Wm mussy (SC)					
Assy - Abdul Bani					
Date of Start - 26.02.2020					
Date of Completion - 25.02.2021					
Date of Entry - 15.09.2020					

(1) ~~Under water~~ ~~SC~~ ~~SS~~

in ~~under~~ ~~long~~ ~~depth~~

$$= 24 \times 3.70 \times 0.100 = 8.88 \text{ m}^3$$

(2) Under WBM ~~SC~~ ~~II~~

depth

$$10 \times 30.00 \times 3.75 \times 0.075 = 84.375 \text{ m}^3$$

$$= 1 \times 30.00 \times \frac{3.75 + 3.60}{2} \times 0.075 = 8.27 \text{ m}^3$$

$$= 1 \times 20.00 \times 3.70 \times 0.075 = 5.55 \text{ m}^3$$

$$98.195 \text{ m}^3$$

(3) Under P.C.C. ~~SC~~ ~~II~~

depth

$$= 6 \times 30.00 \times 3.75 \times 0.160 = 108.00 \text{ m}^3$$

$$= 1 \times 30.00 \times \frac{3.75 + 3.60}{2} \times 0.160 = 17.64 \text{ m}^3$$

Continuation

$$= 2 \times 30.00 \times 3.70 \times 0.160 = 35.52 \text{ m}^3$$

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	

(4) Andhra Pradesh Soluhali

Engin Bond with bag

date and Cultum Bond

day of Lys - 1 No

day of Cultum - $\frac{1}{2}$ No

159-2000
DE

Material Shipment

(I) WBM AS-124 118.82 m³

(II) Seving mchls - 34.81 m³

(III) CSSB - 7.96 m³

(IV) Coal SD - 1.67 m³

(V) Stone chips - 258.44 m³

(VI) Curbed SD - 130.00 m³

(VII) Cont - 95.058 MT

Continuation

159-2000
DE

Abstract of Cost

18

Sch. XLV—Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area.
	No.	L.	B.	D.	
(1) Section cut of Brook mud slab					
chuck shab (1) P-12 ne					
1-225 km					
@ 3935-94/km — M 480220					
(2) Ponds Ponds Ponds					
chuck shab (2) P-12 ne					
1-225 km					
@ 1805-14/km — M 220220					
(3) clearing and grubbing and chuck shab (3) P-12 ne					
0-2845					
@ 51133.76/Hg — M 1431720					
(4) Construction to chuck shab					
land 10000m chuck shab					
chuck shab (4) P-12 ne					
M 80-0003					
@ 175-43/m3 — M 7894320					
(5) Construction to Subgrade with					
land 10000m chuck shab					
chuck shab (5) P-12 ne					
261-25 m3					
@ 141.56/m3 — M 3712420					
M 13738820					
P.T.O.					

Continuation

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L	B	D	
(6) Contin to Subdivision					
Shiller deck					
chuck sh. No. (6) P-1342					
22 1719.20 m ³					
@ M 177.07/m ³ — M					304983200
(7) Contin to Bin Pithum					
7+12 long deck					
chuck sh. No. (7) P-1342					761700 m ³
chuck sh. No. (1) P-1642					888 m ³
					770.58 m ³
@ M 183.81/m ³ — M					1821505200
(8) Contin to Bin Pithum					
8+13 in Pithum deck					
chuck sh. No. (8) P-1642					78195 m ³
					342.885 m ³
@ M 4458.79/m ³ — M					1528852200
(9) Contin to Bin Pithum					
deck all					
chuck sh. No. (9) P-1642					
287.16 m ³					
@ M 7079.36/m ³ — M					2032909200
(10) Contin to Bin Pithum					
in Pithum deck					
chuck sh. No. (10) P-1342					
29.80 m ³					
@ M 269.32/m ³ — M					8025200
(11) Contin to Bin Pithum					
in Pithum deck					

Continuation

chuck sh. No. (11) P-1342
 2096 m³
 @ M 3233.09/m³ — M 16674200
 M 5849736200
 P-T-0.

Continuation